



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 फाल्गुन 1944 (श०)
(सं० पटना 159) पटना, मंगलवार, 21 फरवरी 2023

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
25 जनवरी 2023

सं० 1/श्रम वि०स्था०(1) 10-08/2022 श्रम 161—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की विज्ञापन सं० 01/2018 द्वारा आयोजित श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) में कारखाना निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पतों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त हैं) को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के कारखाना निरीक्षक के वेतनमान वेतन स्तर 9 (₹ 53,100—1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक / अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ओवैस अहमद	1/ 201801001883	अनारक्षित	अररिया	छपरा
2.	श्री आशीष भारत	2/ 201801001087	अनारक्षित	लखीसराय	मोतिहारी
3.	श्री सुमित कुमार	3/ 201801001286	अनु० जन जाति	मुंगेर	सहरसा
4.	श्री मुकेश कुमार पाण्डेय	5/ 201801000396	अनारक्षित	गोपालगंज	मुंगेर
5.	श्री मनुज कुमार जैल	9/ 201801000927	अनु०जाति	अरवल	समस्तीपुर

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।
3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में इनपर बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) नियमावली, 1969 के प्रावधान लागू होंगे।
4. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें, भविष्य में गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।
5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक-01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।
7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से 21 (इक्कीस) दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ श्रमायुक्त बिहार, पटना एवं प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 159-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>